

# నేపాల్‌లో కదం తొక్కిన యువత

- సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధంపై భగ్గుమన్ను 'జెస్‌జెడ్'
- పలు చోట్ల ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపేసిన ప్రభుత్వం
- 20 మంది మృతి, 250 మందికి గాయాలు
- రాజధానిలో పలు ప్రాంతాల్లో కర్ఫ్యూ
- ఉన్నతస్థాయి క్యాబినెట్ భేటీకి పిలుపునిచ్చిన ప్రధాని
- రాజీనామా చేసిన హోం మంత్రి

10 మంది గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం ఖాట్మాండులోని పార్లమెంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కర్ఫ్యూ విధించారు. ఆన్‌లైన్ వేదికగా ప్రారంభం అయిన ఈ ఉద్యమం నెమ్మదిగా వీధుల్లోకి వ్యాపించింది. 'జెస్‌జెడ్' విప్లవంగా పిలవబడుతున్న ఈ నిరసనకు అనేక మంది యువత తరలివచ్చారు. నేపాల్ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి ఉన్నతస్థాయి క్యాబినెట్ భేటీకి పిలుపునిచ్చారు. నిరసనకు వైతంక బాధ్యత వహిస్తూ నేపాల్ హోంమంత్రి రమేష్ లోఖత్ రాజీనామా చేశారు. రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ ప్రధాని రాజీనామా చేసిన మరలా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.

## అన్ని వయసులవారూ పాల్గొంటున్నారు

ఈ ఉద్యమంలో జెస్‌జెడ్ వర్గం మాత్రమే పాల్గొంటున్నారనే వాదనను పలువురు ప్రత్యక్ష సాక్షులు కొట్టిపారేశారు. ఈ నిరసనలో అన్ని వయస్సుల ప్రజలు పాల్గొంటున్నట్లు వారు తేల్చిచూపారు. కేవలం సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధం అని మాత్రమే కాకుండా ఇంకా అనేక కారణాలతో ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నట్లు తెలిపారు. 'దేశంలో పెరుగుతూ పోతున్న అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఈ నిరసన. ప్రభుత్వం జవాబుదారీగా ఉండాలనే షరతుతో ఈ నిరసన విస్తృత పౌర ఉద్యమంగా పరిణామం చెందింది' అని పేర్కొన్నారు.

## ఆర్థిక ఉన్నత స్థాయి సమావేశం

నిరసనల నేపథ్యంలో రాజధానిలోని పలు ప్రాంతాల్లో సైన్యాన్ని మోహరించారని, నేపాల్ సైన్యం ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తోందని ప్రభుత్వ అధికార ప్రతినిధి మీడియాకు తెలిపారు. నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మాండులోని ప్రధాని నివాసంలో జాతీయ భద్రతా మండలి ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరుగుతోంది. ప్రధాని అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ సమావేశానికి ప్రధాన కార్యదర్శి విక్ నారాయణ్ ఆర్డర్, ఆర్మీ మంత్రి బిష్ణు పాడెల్, హోం మంత్రి రమేష్ లోఖత్, విదేశాంగ మంత్రి ఆర్పూ రానా దీప్తుబా, రక్షణ మంత్రి మన్మోర్ రాయ్, ఆర్మీ ఛీఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ తదితరులు హాజరయ్యారు.



ఖాట్మాండులో నిరసన తెలుపుతున్న వేలాది మంది యువత, బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టి అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

పలు ప్రాంతాల్లో సైన్యాన్ని మోహరించారని, నేపాల్ సైన్యం ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తోందని ప్రభుత్వ అధికార ప్రతినిధి మీడియాకు తెలిపారు. నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మాండులోని ప్రధాని నివాసంలో జాతీయ భద్రతా మండలి ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరుగుతోంది. ప్రధాని అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ సమావేశానికి ప్రధాన కార్యదర్శి విక్ నారాయణ్ ఆర్డర్, ఆర్మీ మంత్రి బిష్ణు పాడెల్, హోం మంత్రి రమేష్ లోఖత్, విదేశాంగ మంత్రి ఆర్పూ రానా దీప్తుబా, రక్షణ మంత్రి మన్మోర్ రాయ్, ఆర్మీ ఛీఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

టీటర్, వాట్సాప్ వంటి 26 రకాల యాప్స్ సమాచార చేసుకోవడంలో విఫలం అయ్యాయి. దీంతో ప్రభుత్వం వాట్సాప్ నిషేధం విధించింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా జెస్‌జెడ్ వర్గం ఆందోళనలకు దిగింది. ఆదేశాల్ని పాటించని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాంబలను నిషేధించామని ప్రభుత్వం చెబుతుండగా.. ప్రభుత్వం తీసుకునే ప్రజావ్యతిరేక నిర్ణయాలు

లను ప్రశ్నించే వారి గొంతును అణచివేసేందుకే ప్రభుత్వం ఇలా చేసిందని నిరసనకారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం పోస్ట్, ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేస్తూ జెస్‌జెడ్ నిరసనకారులు టీకెటాక్, రెడ్డిట్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ సామాజిక మాధ్యమాల వైపు మొగ్గుచూపారు. వేలాది మంది జెస్‌జెడ్ నిరసనకారులు ఒక్కోటిటుకు చేరుకుని ప్రభుత్వానికి



వ్యతిరేకంగా నివాదాలు చేశారు. మైకిఫుల్ మండల వద్ద ప్రారంభమైన ఈ మార్చ్ పార్లమెంట్ లోనికి చొచ్చుకునిపోయారు. పోలీసులు నిరసనకారుల పైకి బీయర్ గ్యాస్ వదులుతున్నట్లు దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొట్టాయి. నిరసనకారులు పోలీసుల పైకి కొమ్మలు, వాటర్‌బాటిల్స్ విసిరిేశారు.

## పార్లమెంట్ గేట్ ద్వంసం..

నిరసనకారులు పార్లమెంట్ గేట్‌ను ద్వంసం చేసి, ఆ గేటుకు నిప్పుబట్టించారు. 'స్వతంత్ర అభిప్రాయాలు తెలపడం మన హక్కు' పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బులు ఎక్కడికి పోతున్నాయో అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డులు, ఇండాలు పట్టుకుని యువత నిరసనలు చేస్తున్నారు. జెస్‌జెడ్ విప్లవంగా పిలవబడుతున్న ఉద్యమం అవినీతి, ఆర్థిక అసమానతలపై యువతలో రగులుతున్న కోపం నుంచి ఉద్భవించింది విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాను నియంత్రించాలనే ప్రభుత్వ చర్య అజ్యంలా పని చేసిందని, దీంతో యువతలో ఒక్కసారిగా అసహనం కట్టలు తెంచుకుంది.

# ట్రంప్ నిర్ణయం సబబే

- ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ
  - రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై రెండో విడత సుంకాలుంటాయన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు
- న్యూఢిల్లీ, సెప్టెంబర్ 8: రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాల పై అంత్యుల విధి నిర్ణయం సబబే అని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై రెండో విడత సుంకాలు విధించే యోచనలో ఉన్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంతకు ముందు తెలిపారు. ఇప్పటికే ప్రపంచదేశాల పై సుంకాలతో విరుచుకుపడుతున్న ట్రంప్ తాజాగా మరో దశా సుంకాలకు సిద్ధం అవుతున్నాడు.

ఫ్రాన్సు సహకార సమాఖ్య సదస్సు (ఎస్‌సీఎఫ్)లో భాగత ప్రధాని, రష్యా అధ్యక్షుడు, చైనా అధ్యక్షుడి కలయికకు సంబంధించిన పోటీలు ఎలా ఉన్నాయని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీని మీడియా ప్రశ్నించింది. 'రష్యాతో వాణిజ్యం చేసే దేశాలపై సుంకాలు వేయాలనే ట్రంప్ ఆలోచన మంచిదే. మేము రష్యాతో ఎటువంటి వాణిజ్యం చేయడం లేదు. అన్ని రకాల కొనుగోళ్లను నిలిపివేశాం' అని పేర్కొన్నారు. ఎస్‌సీఎఫ్ సదస్సు సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతీన్, భారత్ ప్రధాని మోదీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పలు అంశాలపై చర్చించారు. యూఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెన్సెంట్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 'రష్యా నుంచి చమురును కొనుగోలు చేసే దేశాలపై యురేపియన్ యూనియన్, అమెరికా కలిసి మరో దశా సుంకాలు విధించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. రష్యాతో వాణిజ్యం ఆపితేనే రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థ దిబ్బెత్తిన రష్యా అధ్యక్షుడు పుతీన్ యుద్ధాన్ని విరమిస్తాడు' అని పేర్కొన్నారు.

# ఇక ఆపరేషన్ ఆకర్ష్

- పార్టీ వీడిన వారిని తిరిగి చేర్చుకునేందుకు గ్రీన్‌సిగ్నల్
- కామారెడ్డిలో లక్ష మందితో కాంగ్రెస్ సభ
- వచ్చే వారంలో ఢిల్లీలో నియామక ప్రక్రియ పూర్తి
- పదవుల పంపకాల్లో సామాజిక న్యాయం
- పాత, కొత్త నేతల కలయికగా పంపకాలు
- జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రతిష్టాత్మకం
- వీసీసీ చీఫ్ మహేశ్‌కుమార్ గౌడ్ అధ్యక్షతన టీపీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం
- కేడర్‌కు పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌చార్జ్ మీనాక్షి దిశానిర్దేశం

హైదరాబాద్, సెప్టెంబర్ 8 (విజయక్రాంతి): వివిధ కారణాలతో పార్టీని వీడి బయటకు వెళ్లిన వారిని తిరిగి పార్టీలోకి చేర్చుకోవడంతో పాటు ఇతర పార్టీల నుంచి కాంగ్రెస్‌లో చేరి కలకు టీపీసీసీ గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈనెల 15న కామారెడ్డిలో లక్ష మందితో భారీ సభ నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. కాంగ్రెస్ పదవుల పంపకాల్లో సామాజిక న్యాయం పాటించాలని, వారం రోజుల్లో జిల్లాల్లో ఢిల్లీని నియామక ప్రక్రియ పూర్తి చేయామని ప్రకటించింది. అలాగే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాల ఒత్తిని తగ్గించేందుకు ప్రజాశక్తులకు సత్తును ఇలా హైదరాబాద్‌లోని గాంధీభవన్ లో సోహానం టీ వీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్ గౌడ్, పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌చార్జ్ మీనాక్షిసూరజానే అధ్యక్షులతో జరిగిన వీసీసీ విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో కమిటీ

కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నది. సమావేశానికి డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్కు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో పార్టీలో అంతర్గత సమీకరణాల సుమకుల్యం, ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం, ప్రతిపక్షాల విమర్శలను ఢిల్లీగా తిప్పికొట్టే అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక, ఓట్ల వోటింగ్ సంబంధించిన అంశాలపైనా కొంత చర్చజరిగింది. ఈ నెల 15న కామారెడ్డిలో లక్ష మందితో కాంగ్రెస్ సభ నిర్వహించాలని, అందుకు జనసమీకరణ చేయాలి వీసీసీ చీఫ్ పిలుపునిచ్చారు. పార్టీలో చేరికల విషయంలో వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళ్లాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. పార్టీ కేడర్‌ను.. మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్‌లో ఉన్నవారు ఒక వర్గంగా, ఎన్నికల ముందు ఇతర పార్టీల నుంచి కాంగ్రెస్‌లోకి వచ్చిన వారిని రెండో వర్గంగా, పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్‌లో చేరిన వారిని మూడోవర్గం చేయాలని నిర్ణయించారు. మరలా ఆధారంగా పదేళ్లుగా పార్టీలో ఉంటున్న వారికి నామినేటిడ్ వదవులను కట్టబెట్టాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు.

## జిల్లాల్లో విస్తృతస్థాయి సమావేశాలు..

ఇక్కడ జిల్లాల్లోనూ పార్టీ విస్తృతస్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించాలని పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌చార్జ్ మీనాక్షిసూరజానే బీరూజుని సూచించారు. ప్రతి కమిటీలో సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడి పదవులు అప్పగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. త్వరలోనే నామినేటిడ్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని అవ్వబోయారు. పార్టీ కోసం కష్టపడే వారికి సముచిత స్థానం ఉంటుందని భరోసానిచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో 70-80 శాతం పదవులు పాతవారికే ఇచ్చామని, మిగిలిన 20 శాతం కొత్తవారికే అవకాశం కల్పిస్తామని తేల్చిచెప్పారు. వీసీసీకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లతోనే స్థానం ఎన్నికలకు వెళ్లాలని పార్టీ యోచిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉందని ఉద్ఘాటించారు. 15న జరిగే కామారెడ్డి సభను విజయవంతం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రతిష్టాత్మకమని, ఆ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకునేందుకు పార్టీ శ్రేణులు కృషి చేయాలని సూచించారు. వచ్చే వారంలో ఢిల్లీని కమిటీల నియామకాలు పూర్తి చేస్తామన్నారు. మూడు నెలల్లో పార్టీ గ్రామ అధ్యక్షులు ఎంపిక ఉంటుందన్నారు.

## మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌కు శుభాకాంక్షలు..

మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్ వీసీసీ అధ్యక్ష పదవి చేపట్టి ఏడాది కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వీసీసీ విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల రాష్ట్ర ఇన్‌చార్జ్ మీనాక్షిసూరజానే, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ మీసీ అధి శ్రీనివాస్, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్యేలు, వివిధ కార్యరేషన్ల చైర్మన్లు, పార్టీ నాయకులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

## ఉద్యమంలా చేరికలందాని

## డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్కు

'భీఆర్‌ఎస్' చిలువలు పలుచలైంది. ఇకముందు ఎన్ని ముక్కులుపుకుంటారో తెలియని పరిస్థితి' అని డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్కు ఎద్దామా చేశారు. వివిధ పార్టీల నుంచి గ్రామ, మండల స్థాయిలో ఉద్యమంలా కాంగ్రెస్‌లో చేరికలు ఉండాలని కేడర్‌కు పిలుపునిచ్చారు. ఏపీసీసీ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీని ప్రధానిని చేసేందుకు పార్టీ శ్రేణులు కృషి చేయాలని సూచించారు. ఎన్నికల ముందు పని చేసిన ప్రతి కార్యకర్తకు పార్టీ లేదా ప్రభుత్వ పదవి ఎంతో ఒకటి తప్పకుండా వస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో వీసీసీకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు కామమి ఎన్ని సవాళ్లైనా ఎదుర్కొంటామని తెలిపారు.




# మల్లెపూలు తీసుకెళ్లిన హీరోయిన్ 1.14 లక్షలు ఫైన్ వేసిన ఆస్ట్రేలియా

- ఓసం మేడుకల కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిన మలయాళ భామ
- న్యూఢిల్లీ, సెప్టెంబర్ 8: మలయాళ సబీ నవ్వునార్యకు భారీ ఫైన్ పడింది. ఆస్ట్రేలియాలోని 'మలయాళీ ఆనోనిముస్ షన్ ఆఫ్ విక్రీయా' నిర్వహించిన ఓసం మేడుకలకు హాజరు కావడం కోసం నవ్వునార్యుర్ మెల్‌బోర్న్ వెళ్లింది. వెళ్లటపుడు తనతో పాటు మల్లెపూలు కూడా తీసుకెళ్లింది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన మెల్‌బోర్న్ విమానాశ్రయ కస్టమర్స్ అధికారులు సదరు సబీ రూ. 1.14 లక్షల భారీ జరిమానా విధించారు. ఆస్ట్రేలియా విమానాశ్రయంలో కనిపించిన బయట సెక్యూరిటీ చట్టాలు అనులోల ఇచ్చాయి. ఈ చట్టాల వల్లే నవ్వునార్యుర్ అంత జరిమానా విధించారు. జరిమానా కట్టిన నవ్వు ఈ విషయాన్ని తర్వాత జరిగిన కార్యక్రమంలో చెప్ప



డంతో బయటకు వచ్చింది. ఇది తప్పేనని ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయలేదని సదరు సబీ తెలిపారు.

LEAD MANAGER		REGISTRAR TO THE ISSUE	
<div>Getfive*</div> <div>Getfive Advisors Private Limited (Formerly known as Aavanya Advisors Private Limited)</div> <div>Address: 502, Abhishree Avenue, Nehrunagar, Manekbag, Ahmedabad, Gujarat, India, 380015</div> <div>Website: <a href="http://www.getfive.in">www.getfive.in</a></div> <div>SEBI Registration: INM000013147</div>		<div> Bigshare Services Pvt. Ltd.</div> <div>Bigshare Services Private Limited</div> <div>Address: S6-2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra.</div> <div>Website: <a href="https://www.bigshareonline.com">https://www.bigshareonline.com</a></div> <div>SEBI Registration: INR000001385</div>	
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the Draft Red Herring Prospectus			
Place: Secunderabad, Telangana Date: September 08, 2025		For On behalf of EPW India Limited Sd/- Yousuf Uddin Managing Director and Chairman	
<p>EPW India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an Initial Public Offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus September 05, 2025 with EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE or NSE EMERGE"). The Draft Red Herring Prospectus shall be available on the website of NSE at <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a>, and the website of the BRLM at <a href="http://www.getfive.in">www.getfive.in</a>. Any potential investor should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with exchange for making any investment decisions and should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Red Herring Prospectus for details of the same.</p> <p>This announcement has been prepared for publication in India and not to be released or distributed in the United States. This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy Equity Shares of our Company in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.</p>			



# एमएससीआई ईएम में भारत का भार घटा

पिछले एक साल में उभरते बाजारों में कमजोर प्रदर्शन के बाद भार दो साल के निचले स्तर पर

समी मोडक  
मुंबई, 8 सितंबर

एमएससीआई उभरते बाजारों (ईएम) के इंडेक्स में भारत का भार करीब दो साल के निचले स्तर पर आ गया है। इसकी वजह घरेलू शेयरों का कमजोर प्रदर्शन है जिससे वैश्विक निवेशकों द्वारा व्यापक रूप से ट्रैक किए जाने वाले बेंचमार्क में इसकी स्थिति कमजोर हो गई है।

अगस्त के अंत में भारत की हिस्सेदारी 16.21 फीसदी रही जो नवंबर 2023 के बाद से सबसे कम है। यह जुलाई 2024 के अपने उच्चतम स्तर 20 फीसदी से भारी गिरावट दर्शाती है। तब यह सूचकांक के सबसे बड़े भार वाले चीन से महज 4.5 फीसदी दूर था। भारत एक पायदान फिसलकर ताइवान के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है।

एमएससीआई ईएम निवेश योग्य बाजार सूचकांक (आईएमआई) में भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। पिछले अगस्त में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद भारत अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है और इसका भार एक साल पहले के 22.3 फीसदी से घटकर 17.47 फीसदी रह गया है।

यह गिरावट एक साल के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद आई है। पिछले 12 महीनों में एमएससीआई ईएम इंडेक्स में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जबकि भारत के बेंचमार्क निफ्टी 50 में 2 फीसदी की गिरावट आई है।

नुवामा इस्टिट्यूशनल इक्विटीज में ऑल्टरनेटिव ऐंड क्वालिटेटिव रिसर्च के प्रमुख अभिलाष पगारिया के अनुसार एमएससीआई ईएम सूचकांक में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व के बावजूद यह गिरावट आई है। जुलाई 2024 में उसमें 146 कंपनियां थी जो अब 160 तक हो गई है। उन्होंने कहा, यह गिरावट मुख्य रूप से चीन में आई भारी तेजी के कारण हुई। तेजी ने उसके



अजय मोहंती

### कमजोर प्रदर्शन का असर

■ **एमएससीआई ईएम में अगस्त के अंत में भारत की हिस्सेदारी 16.21 फीसदी रही जो नवंबर 2023 के बाद से सबसे कम है**

■ **पिछले अगस्त में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद भारत अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है और इसका भार एक साल पहले के 22.3 फीसदी से घटकर 17.47 फीसदी रह गया है**

फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण में इजाफा किया जबकि भारतीय डिगज शेयरों का प्रदर्शन स्थिर रहा या कमजोर रहा। पगारिया को उम्मीद है कि भारत का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ेगा और अगले साल तक इसमें करीब 170 कंपनियों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर चीन में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं हुई तो भारत को 20 फीसदी हिस्सेदारी पार करने में और

■ **पिछले 12 महीनों में एमएससीआई ईएम इंडेक्स में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जबकि भारत के बेंचमार्क निफ्टी 50 में 2 फीसदी की गिरावट आई है**

■ **एमएससीआई ईएम सूचकांक में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व के बावजूद यह गिरावट आई है**

■ **जुलाई 2024 में उसमें 146 कंपनियां थी जो अब 160 तक हो गई है**

समय लग सकता है।

एमएससीआई ईएम इंडेक्स में कम भार से आमतौर पर भारत में निवेश में कमी आती है। इस इंडेक्स को 700 अरब डॉलर से ज्यादा की परिसंपत्ति वाले वैश्विक फंड ट्रैक करते हैं। भारांक में गिरावट के अलावा कमजोर आय, वृद्धि दर में नरमी और अमेरिका के भारी शुल्कों जैसी चुनौतियों के बीच भारत सक्रिय फंड मैनेजर्स को पसंद से भी बाहर हो गया है।

### छह कारोबारी सत्र में 50 फीसदी

### उछल गया मोबिविक्क

बीएस संवाददाता  
मुंबई, 8 सितंबर

डिजिटल भुगतान कंपनी वन मोबिविक्क सिस्टम्स के शेयरों में सोमवार को 11 फीसदी की तेजी आई। लिहाजा यह शेयर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से करीब 50 फीसदी बढ़ गया। यह शेयर 325 रुपये पर बंद हुआ, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 2,540 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 29 अगस्त को यह शेयर 219 रुपये के सर्वकालिक निचले स्तर पर चला गया था। तेज उछाल के बावजूद यह शेयर अभी भी दिसंबर के अपने उच्चतम स्तर 698 रुपये के आधे से भी कम पर कारोबार कर रहा है।

यह ताजा उछाल ऐसे समय आई है जब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआइए) ने महीने की शुरुआत में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी थी। बाजार के जानकारों का कहना है कि मोबिविक्क का पूर्ण मूल्यांकन आकर्षक हो गया है जिससे एएमआई और कुछ म्यूचुअल फंडों ने खरीदारी में रुचि दिखाई है।

एक विश्लेषक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, कंपनी मुनाफे की ओर बढ़ रही है। उसका बाजार पूंजीकरण भी 2,000 करोड़ रुपये से नीचे आ गया है जो इसे अधिग्रहण के लिए अच्छा लक्ष्य बनाता है। इसके अलावा फोन पोंई भी जल्द ही आईपीओ के लिए आवेदन करने जा रही है जिससे इस शेयर की री-रेटिंग दोबारा हो सकती है।

# जेपी के लिए वेदांत और अदाणी की पेशकश पर मतदान करेंगे लेनदार

रुचिका चित्रवंशी

नई दिल्ली, 8 सितंबर

**जयप्रकाश** एसोसिएट्स की लेनदारों की समिति के आने वाले दिनों में बोलीदाताओं की संशोधित समाधान योजना पर मतदान करने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को हुई नीलामी में दिवालिया कंपनी के लिए वेदांत लिमिटेड की बोली सबसे बड़ी पाई गई थी।

वेदांत ने जेएएल के पोर्टफोलियो के लिए 17,000 करोड़ रुपये (करीब 2 अरब डॉलर) की पेशकश की है जिसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 4,000 एकड़ जमीन, 2,200 मेगावॉट के बिजली संयंत्र में हिस्सेदारी, 1 करोड़ टन क्षमता वाली सीमेंट इकाई, एक यूरिया संयंत्र, पांच होटल और इपीसी परिचालन शामिल हैं। वेदांत ने लेनदारों को 12,505 करोड़ रुपये का शुद्ध वर्तमान मूल्य देने की पेशकश की है जबकि अदाणी ने 12,005 करोड़ रुपये की पेशकश की है।

दौड़ में शामिल अन्य बोलीदाता थे - अदाणी समूह, डालमिया समूह, जिंदल स्टील ऐंड पावर लिमिटेड और पीएनसी इन्फ्राटेक। बोलीदाताओं में से अदाणी और डालमिया को पहले ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी मिल चुकी है जबकि जिंदल पावर और पीएनसी इन्फ्राटेक के प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। वेदांत को अभी सीसीआई से मंजूरी

लेनी है।

नुवामा की एक रिपोर्ट में आज कहा गया है कि अगर वेदांत को लेनदारों की मंजूरी मिल जाती है तो अदालत की मंजूरी के बाद उसे लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करना होगा, जिसमें 8-10 महीने लग सकते हैं। बाकी रकम का भुगतान पांच वर्षों में करना होगा।

यह बोली बिना शर्त है जिसका अर्थ है कि वेदांत को यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के साथ बकाया राशि के भुगतान पर मुकदमेबाजी जैसे लंबित विवाद भी मिलेंगे। लेनदारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना मत देने से पहले धन के स्रोतों, प्रस्तावों की व्यवहार्यता और रिकवरी की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

### कारोबारी निपटान की

### तारीख में बदलाव का

### सेबी ने किया ऐलान

**क्लियरिंग** कॉरपोरेशनों (सीसी) के 8 सितंबर को निपटान अवकाश घोषित किए जाने के बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को निपटान तारीखों में बदलाव की घोषणा की।

डेरिवेटिव के लिए तीन कारोबारी दिवसों (गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार) का निपटान अब मंगलवार ( 9 सितंबर) को पूरा होगा। इस बीच, नकद और स्टॉक लेंडिंग ऐंड बॉर्रिंग ( एसएलबी ) खंडों के लिए गुरुवार और शुक्रवार को किए गए सौदों का निपटान मंगलवार को होगा जबकि सोमवार और मंगलवार के सौदों का निपटान बुधवार ( 10 सितंबर) को पूरा होगा।

नियामक ने कहा है कि यह निर्णय स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशनों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है ताकि सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित हो और निवेशकों और ट्रेडरों के लिए व्यवधान कम से कम हों।

बीएस

# मजबूत वैश्विक रुख से भारतीय बाजार में तेजी

भाषा

मुंबई, 8 सितंबर

**वैश्विक** बाजारों में मजबूत रुख के बीच देसी शेयर बाजार सोमवार को चढ़े। बीएसई सेंसेक्स में 76 अंक की तेजी रही जबकि एनएसई निफ्टी 32 अंक उछला। इस महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से वैश्विक बाजारों में तेजी आई, जिसका घरेलू बाजार पर सकारात्मक असर पड़ा। कारोबार के आखिरी घंटे में निवेशकों की मुनाफावसूली के बावजूद बीएसई सेंसेक्स 76.54 अंक यानी 0.09 फीसदी की बढ़त के साथ 80,787.30 अंक पर बंद हुआ।

सेंसैक्स बढ़त के साथ खुला और बाद में वाहन, पेट्रोलियम और निजी बैंक शेयरों में तेजी के साथ 460.62 अंक यानी 0.57 प्रतिशत बढ़कर 81,171.38 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, आईटी और एफएमसीजी के शेयरों में बिकवाली ने अंत में बढ़त को सीमित कर दिया।

उधर, एनएसई निफ्टी 32.15 अंक यानी 0.13 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 24,773.15 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा 3.97 फीसदी की तेजी रही जबकि महिंद्रा ऐंड महिंद्रा 3.96 फीसदी चढ़ा। इसके अलावा मारुति, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनैस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में भी इजाफा हुआ।

दूसरी तरफ, ट्रेट में 3.81 फीसदी की गिरावट आई। एशियन पेट्र्स, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, टीसीएस, पावर ग्रिड और सन फार्मा के शेयर भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, घरेलू बाजार अपनी शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख सका क्योंकि सत्र के आखिर में हुई बिकवाली ने गिरावट पर खरीदारी व तेजी पर बिकवाली की प्रचलित रणनीति को प्रतिबिंबित किया। इससे निवेशक सतर्क दिखे। जीएसटी दरों में कटौती के बाद मांग में सुधार की उम्मीद में वाहन और कलपुर्जा कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी रही, जबकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आईटी शेयर कमजोर रहे।

<p><b>THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.</b></p> <p><b>PUBLIC ANNOUNCEMENT</b></p> <p><b>EPW INDIA LIMITED</b></p> <p><b>Corporate Identification Number:</b> U72900TG2021PLC150671</p> <p>Our Company was originally incorporated as EPW India Private Limited on April 16, 2021 under the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies/ Central Processing Centre, Manesar. Subsequently, the name of the company was changed from "EPW India Private Limited" to "EPW India Limited" under The Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on November 25, 2024 and had obtained fresh certificate of incorporation dated December 26, 2024 issued by the Registrar of Companies/ Central Processing Centre, Manesar with Corporate Identification Number of the Company U72900TG2021PLC150671. For details pertaining to the changes of name of our company, please refer to the chapter titled <i><b>"History and Corporate Structure"</b></i> on page no. 182 of this Draft Red Herring Prospectus.</p> <p><b>Registered Office:</b> Shop No. 131 &amp; 132, Ground Floor, C-Block Chenoy Trade Center, Parklane, Secunderabad, Hyderabad – 500003 Telangana</p> <p><b>Contact Person:</b> Deepika Gupta, Company Secretary &amp; Compliance Officer;</p> <p><b>Telephone:</b> +91 79934 39988   <b>Email:</b> compliance@epwindia.com; <b>Website:</b> www.epwindia.com</p>	
<p><b>PROMOTERS OF OUR COMPANY</b></p> <p><b>YOUSUF UDDIN, MOHD FASI UDDIN and MOHD ZAKI UDDIN</b></p>	
<p><b>INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 32,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF EPW INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ (●) LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ (●) LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"), THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ (●) LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE (●) % AND (●) % RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE PRICE AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("BRLM") AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF (●) (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF (●) (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF (●) (A WIDELY CIRCULATED TELUGU DAILY NEWSPAPER, TELUGU BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF TELANGANA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) AT LEAST TWO (2) WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE OPENING DATE IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"), AND SUCH ADVERTISEMENT SHALL BE MADE AVAILABLE TO NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") (THE "STOCK EXCHANGE") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.</b></p>	
<p>In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid /Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.</p> <p>The Issue is being made through the Book Building process in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229(1) of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors wherein (a) one third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than □10 lakhs; (b) two third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than ₹10 lakhs; and (c) any unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to Applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors; and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors, who applies for minimum application size in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. For further details please refer to the section titled <i><b>"Issue Information"</b></i> beginning on page no. 339 of this Draft Red Herring Prospectus.</p> <p>This public announcement is being made in compliance with Regulation 247 of SEBI (ICDR), Regulations, 2018 and amendments thereof to inform the public that the Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus dated September 05, 2025 with the Stock Exchange. Pursuant to SEBI ICDR Regulations, the Draft Red Herring Prospectus filed with Exchange shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the websites the BRLM at www.getfive.in and the Stock Exchange where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. NSE at www.nseindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with exchange in respect of disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments sent to exchange, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company or the BRLM on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus.</p> <p>Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the exchange, nor does exchange guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" on page 31 of the Draft Red Herring Prospectus.</p> <p>Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus shall be made after a Prospectus ("Prospectus") has been registered with the RoC. The Equity shares, when offered through the Draft Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of National Stock Exchange Limited.</p> <p>For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 182 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 74 of the Draft Red Herring Prospectus.</p>	
<b>LEAD MANAGER</b>	<b>REGISTRAR TO THE ISSUE</b>
 <p><b>Getfive Advisors Private Limited</b> (Formerly known as Aavanya Advisors Private Limited) <b>Address:</b> 502, Abhishree Avenue, Nehrunagar, Manekbag, Ahmedabad, Gujarat, India, 380015 <b>Website:</b> www.getfive.in <b>SEBI Registration:</b> INM000013147</p>	 <p><b>Bigshare Services Private Limited</b> <b>Address:</b> S6-2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra. <b>Website:</b> https://www.bigshareonline.com <b>SEBI Registration:</b> INR000001385</p>
<p><b>All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the Draft Red Herring Prospectus</b></p>	
<p><b>Place:</b> Secunderabad, Telangana <b>Date:</b> September 08, 2025</p>	
<p><b>EPW India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an Initial Public Offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus September 05, 2025 with EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE or NSE EMERGE"). The Draft Red Herring Prospectus shall be available on the website of NSE at www.nseindia.com, and the website of the BRLM at www.getfive.in. Any potential Investor should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with exchange for making any investment decisions and should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled <i><b>"Risk Factors"</b></i> beginning on page 31 of the Draft Red Herring Prospectus for details of the same.</b></p> <p><b>This announcement has been prepared for publication in India and not to be released or distributed in the United States. This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy Equity Shares of our Company in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.</b></p>	





**THE KARUR VYSYA BANK LIMITED**  
Regd. & Central Office, No. 20, Erode Road,  
Vadivel Nagar, L.N.S., Karur - 639002  
[CIN No: L65110TN1916PLC001295]  
[E-mail:kvb\_sig@kvbmail.com] [Website: www.kvb.co.in]  
[Tel No: 04324-269441]

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the Bank is reported as lost/misplaced and holder(s) of the said share certificate(s) have applied to the Bank to issue duplicate Share Certificate(s).

Folio No	Name of the Shareholder(s)	Certificate Numbers	Distinctive Numbers	No of Shares
S06043	SARASWATHI	5630 174108	16951621-16953515 728604636-728604824	1895 189
N00185	NAMAGIRILAKSHMI V	466 161644	1128606-1146685 724176493-724179505	18080 3013


Any person who has any claim(s) in respect of the said shares should lodge such claim(s) with the Bank at its registered office within 15 days of publication of this notice else the Bank will proceed to issue Letter of Confirmation in lieu of duplicate share certificate to the aforesaid applicant(s) without any further intimation.

For The Karur Vysya Bank Limited

Srinivasarao M  
Company Secretary

Place : Karur

Date : 08.09.2025



**THE KARUR VYSYA BANK LIMITED**  
Regd. & Central Office, No. 20, Erode Road,  
Vadivel Nagar, L.N.S., Karur - 639002  
[CIN No: L65110TN1916PLC001295]  
[E-mail:kvb\_sig@kvbmail.com] [Website: www.kvb.co.in]  
[Tel No: 04324-269441]

**Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Karur Vysya Bank Limited**

Notice to Investors is hereby given that, pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, a Special Window has been opened for a period of six months, from July 07, 2025, to January 06, 2026, to facilitate re-lodgment of transfer requests of physical shares. This facility is available for transfer deeds lodged prior to April 01, 2019, which were rejected, returned, due to deficiencies in documents. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window period.

Investors who have missed the earlier deadline of March 31, 2021, are requested to furnish the necessary signed documents to the Bank's RTA as given below:

M/s. MUFG Intime India Private Limited,  
(Unit: Karur Vysya Bank)  
"Surya" 35 Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar,  
Sowripalayam Road, Coimbatore-641028, Tamil Nadu.  
E-mail: coimbatore@in.mpmu.mufg.com  
Website: www.in.mpmu.mufg.com  
Tel: 0422- 2314792/4958995/ 2539835/2539836


Kindly note that the shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode after completing the due process.

For The Karur Vysya Bank Limited

Srinivasa Rao M  
Company Secretary  
(Membership No. ACS 91819)

Place : Karur

Date : September 08, 2025



**ONE GLOBAL SERVICE PROVIDER LIMITED**  
CIN: L74110MH1992PLC367633  
Regd. Add. : 6th Floor, 601 E Wing, Trade Link Building, B & C Block Senapati Bapat Marg, Kamaia Mill Compound, Lower Parel (W) Delisle Road, Mumbai, Maharashtra - 400013.  
Telephone : 8657527323 • e-mail: compliance.1connect@1gsp.in • Website: www.1gsp.in

**NOTICE OF 33rd AGM FOR ONE GLOBAL SERVICE PROVIDER LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS.**

Notice is hereby given that the 33rd (Thirty Third) Annual General Meeting of the members of One Global Service Provider Limited will be held on Tuesday, 30th September, 2025, AT 2.00 P.M. IST through video conferencing/other audio visual means (VC) to transact the businesses as set out in the AGM. The electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2024-25 have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s) in accordance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs. The same is also available on the Company's Website.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Tuesday, September 23, 2025 may cast their vote electronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of NSDL from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

- The Ordinary / Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting shall commence on Saturday, September 27th, 2025 (9:00 a.m. IST)
- The remote e-voting shall end on Monday, September 29th, 2025 (5:00 p.m. IST)
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, September 23, 2025.
- The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 23rd September, 2025 to 30th September, 2025.
- Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, September 23, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at following email id's: evoting@nsdl.co.in or issuer/RTA.

**Members may note that :**

(1) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

(2) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

(3) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The notice of AGM is available on the Company's website <http://www.1gsp.in/> and also on the NSDL's website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), and in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), or email at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), Tel: 1800-222-990 or contact M/s. Megha Chitre, Company Secretary and Compliance Officer of the company, at [1connect@1gsp.in](mailto:1connect@1gsp.in). Contact No.: 8758706408 who will also address grievances connected with the voting by electronics means.

For, One Global Service Provider Limited

Sd/-  
Megha Chitre  
Company Secretary and Compliance Officer

Date : 08.09.2025

Place : Mumbai

**RETAGGIO INDUSTRIES LIMITED**  
CIN: U36990MH2022PLC374614  
Registered Office: Unit-204, Options Primo, Plot No.X-2, Next to Akuriti Software Park, Andheri E, Mumbai - 400093.  
Contact: 022 66973344, Email: [info@retaggioindustries.com](mailto:info@retaggioindustries.com)  
Website: [www.retaggioindustries.com](http://www.retaggioindustries.com)

**NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY**

**FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING**

Notice calling the Fourth Annual General Meeting ("AGM") of the Company, scheduled to be held on Tuesday, 30th September, 2025 at 02.00 p.m. (IST), and the audited financial statement for the financial year 2024-25, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 08th September, 2025, electronically to the members of the Company.

The Notice of AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at [www.retaggioindustries.com](http://www.retaggioindustries.com) and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited ("BSE") at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to [info@retaggioindustries.com](mailto:info@retaggioindustries.com) mentioning his/her/ its folio number/ DP ID and Client ID.

**Remote e-voting**

The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which (a) persons who become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein); (b) members who have forgotten the User ID and Password, can obtain generate the User ID and Password, has also been provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting facility will be available during the following period:

**Commencement of remote e-voting: 9:00 p.m. IST on Friday, 26th September, 2025**

**End of remote e-voting: 5:00 p.m. IST on Monday, 29th September, 2025**

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.

Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote by Poll at the AGM.

Only a person, whose name is recorded as on the Cutoff Date, i.e., Tuesday, 23rd September, 2025, in the register of members register of beneficial owners maintained by the Depositories, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Poll. M/s. Nishant Bajaj & Associates, Practicing Company Secretary (COP: 21538) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting at the AGM, in a fair and transparent manner.

The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at [www.retaggioindustries.com](http://www.retaggioindustries.com) and on the website of BSE [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing.

Members who need assistance before or during the meeting, can contact NSDL on [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) +91 22 48867000 or contact Amit Vishal, Deputy Vice President – NSDL at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or Sanjeev Yadav, Assistant Manager-NSDL at [sanjeevy@nsdl.com](mailto:sanjeevy@nsdl.com)

By Order of Board of Directors

For Retaggio Industries Limited

Sd/-  
Savinay Lodha  
Managing Director

Date: 08<sup>th</sup> September, 2025

Place: Mumbai

**ATCOM TECHNOLOGIES LIMITED**  
CIN : L29299MH1983PLC054224  
Regd. Office: 5, Sannidhan, Plot No. 145, Indulal D Bhuva Marg, Wadala, Mumbai 400031; Tel No: 022-35566211  
Email: [contact@atcomtech.co.in](mailto:contact@atcomtech.co.in)  
Website: [www.atcomtech.co.in](http://www.atcomtech.co.in)

**PUBLIC NOTICE**

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 09.00 A.M. at Flat No.5, Sannidhan, Plot No. 145, Indulal D Bhuva Marg, Wadala, Mumbai – 400 031, to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

The Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2025, including the Notice of AGM, Attendance Slip and Proxy Form have been sent via email to those members whose email-IDs have been registered with the Company or the Depositories, as the case may be, and through other permitted modes to all other members at their registered addresses. The physical copy of the Annual Report shall also be sent to those members who specifically request for the same. The Annual Report is also available on the website of the Company at <https://www.atcomtech.co.in/annual-report-policies>. The documents pertaining to the businesses to be transacted at the AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules there under, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 22, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both days inclusive) for the 36th AGM of the members of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting ('remote e-voting') facility to the members and the business set out in the notice may be transacted through remote e-voting. The Company has engaged NSDL for facilitating the remote e-voting process.

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., September 22, 2025, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Saturday, September 27, 2025 and will end on at 5.00 pm on Monday, September 29, 2025. Members will not be allowed to vote electronically beyond the said timeline.

Any person, who acquires the shares of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and becomes a member as on the cut-off date, i.e., September 22, 2025 can view the notice of the AGM on the Company's website as mentioned above. Such members may obtain the login ID and password by sending a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). They may also refer to the voting instructions on the NSDL website. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote.


Members may note that: a) Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper. Complete details as regards remote e-voting have been provided in the notice.

For Atcom Technologies Limited

Sd/-  
VIKRAM ANANTHAR DOSHI  
DIN: 00063455  
Managing Director

Place : Mumbai

Date : 08/09/2025



**AZAD ENGINEERING LIMITED**  
CIN: L74210TG1983PLC004132  
Registered Office: 90/C, 90/D, Phase 1, IDA, Jeedimetla , Hyderabad, Telangana-500055, India  
Email: [cs@azad.in](mailto:cs@azad.in), Phone : +91-40-2309 7007; Website: <https://www.azad.in>

**NOTICE OF THE 42 ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM"), BOOK CLOSURE, CUT-OFF DATE AND INFORMATION ON E-VOTING.**

Notice is hereby given that the **42 Annual General Meeting** ("42 AGM") of the members of Azad Engineering Limited ("**the Company**") is scheduled to be held on **Tuesday, 30 day of September, 2025 at 04:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("**VC/OAVM**") to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 42 AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the SEBI (LODR) Regulations, 2015, and General Circular nos. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020, 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January, 2021, 21/2021 dated 14<sup>th</sup> December, 2021, 2/2022 dated 5<sup>th</sup> May, 2022, 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022, 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September 2023 and 09/2024 dated 19<sup>th</sup> September 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") , in relation to the extension of framework provided in the MCA Circulars up to 30<sup>th</sup> September 2025, read with Circulars dated 12th May, 2020, 15<sup>th</sup> January, 2021, 13th May 2022, 5<sup>th</sup> January, 2023, Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated 11<sup>th</sup> July, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7<sup>th</sup> October 2023, Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3<sup>rd</sup> October, 2024 and other relevant circulars, if any, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), from time to time (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue, M/s. KFin Technologies Limited, Registrar & Transfer Agent of the Company ("RTA"), shall be providing the facility for voting and attending the AGM through VC.

In compliance with the Circulars, an electronic copy of the Annual Report containing the Notice of the AGM is being sent only by email to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories, unless any member has requested a physical copy of the same. The Annual Report containing the Notice of the AGM has been uploaded on the website of the Company at [www.azad.in](http://www.azad.in). The Notice is also accessible from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. The same is also available on the website of RTA at <https://evoting.kfintech.com/>.

**Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the 42 AGM, including the instructions for joining the 42 AGM, manner of casting vote through remote e-voting prior to the 42 AGM or through e-voting during the 42 AGM.**

SEBI, vide Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70 dated 17.05.2023 as amended by SEBI Circular No.: SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 dated 17.11.2023 mandated that the security holders (holding securities in physical form), whose folio(s) are not updated with the KYC details (any of the details viz., PAN; Choice of Nomination; Contact Details including Mobile Number, Bank Account Details and Specimen Signature) shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. You may also refer to SEBI FAQs by accessing the link: [https://www.sebi.gov.in/sebi\\_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf](https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf) (FAQ Nos. 38 & 39). For the purpose of updation of KYC details against your folio, you are requested to send the details to our RTA along with copy of this letter to M/s. KFin Technologies Limited (Unit: Azad Engineering Limited), Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana.

Investors can download the following forms & SEBI Circulars, which are also uploaded on the website of the company at <https://www.azad.in/company-announcements/> and are also available on the website of KFin Technologies Limited at <https://ris.kfintech.com/client-services/iscl/isforms.aspx>.

**Book Closure:** Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Saturday, September 20, 2025 to Friday, September 26, 2025 (both days inclusive).**

**Cut-off date:** The Company has fixed **Friday, 19 day of September, 2025** as the Cut-Off Date/Record Date at the 42 AGM and e-voting (both remote e-voting as well as e-voting during the AGM) for the said 42 AGM.

**VC/OAVM:** The members are requested to participate in the 42 AGM through VC/OAVM by following the detailed procedure and instructions which forms part of the Notice of the 42 AGM.

**E-Voting:** Members are being provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services offered by M/s. KFin Technologies Limited, Registrar & Transfer Agent of the Company ("RTA"), on all resolutions set forth in the Notice of the 42 AGM. The remote e-voting shall commence on **Friday, September 26, 2025 at 9:00 A.M. (IST)**, and shall end on **Monday, September 29, 2025 at 5:00 P.M. (IST)**. Members may note that remote e-voting facility will be disabled on Monday, September 29, 2025 after 5:00 P.M. (IST). The members who have not cast their vote electronically through remote e-voting can exercise their vote through e-voting during the 42 AGM.

Members whose names are recorded in the register of members / register of beneficial owners as on the cut-off/ record date i.e., **Friday, 19 day of September, 2025**, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting (between **Friday, September 26, 2025 at 9:00 A.M. (IST)**), and shall end on **Monday, September 29, 2025 at 5:00 P.M. (IST)**) (e-voting during the 42 AGM. Once the vote on a resolution is cast by the member, he / she shall not be allowed to change it subsequently. The members who have not cast their vote electronically through remote e-voting can exercise their e-voting at the 42 AGM. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the 42 AGM may also attend the 42 AGM but will not be entitled to cast their vote again thereat.

Investors who become members of the Company after the dispatch of the notice by email and who hold the shares as on the cut-off date i.e., **Friday, the 19 day of September, 2025**, may obtain the user ID and password by sending a request to the Depositories/ respective Depository Participant/Company/ RTA, in the manner stated in the e-voting instructions provided in the Notice of the 42 AGM and in accordance with the SEBI Circular dated 9<sup>th</sup> December, 2020.

The Company has appointed Mr. Ashish Kumar Gaggar, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any query and/or grievance pertaining to e-voting, please refer 'Help & FAQs' and 'e-voting User Manual' available at the 'Download' section on the website of RTA viz. KFin Technologies Limited. You may also contact the Company at [cs@azad.in](mailto:cs@azad.in) or the RTA at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) / [umesh.pandey@kfintech.com](mailto:umesh.pandey@kfintech.com) or call on Toll free Number: 1800-309-4001, for any further clarifications.

For Azad Engineering Limited


Sd/-  
Ful Kumar Gautam  
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad

Date: September 08, 2025

**THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.**

**PUBLIC ANNOUNCEMENT**



**EPW INDIA LIMITED**  
Corporate Identification Number: U72900TG2021PLC150671

Our Company was originally incorporated as EPW India Private Limited on April 16, 2021 under the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies/ Central Processing Centre, Manesar. Subsequently, the name of the company was changed from "EPW India Private Limited" to "EPW India Limited" under The Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on November 25, 2024 and had obtained fresh certificate of incorporation dated December 26, 2024 issued by the Registrar of Companies/ Central Processing Centre, Manesar with Corporate Identification Number of the Company U72900TG2021PLC150671. For details pertaining to the changes of name of our company, please refer to the chapter titled "**History and Corporate Structure**" on page no. 182 of this Draft Red Herring Prospectus.

**Registered Office:** Shop No. 131 & 132, Ground Floor, C-Block Chenoy Trade Center, Parklane, Secunderabad, Hyderabad – 500003 Telangana

**Contact Person:** Deepika Gupta, Company Secretary & Compliance Officer;

**Telephone:** +91 79934 39988 / **Email:** [compliance@epwindia.com](mailto:compliance@epwindia.com); **Website:** [www.epwindia.com](http://www.epwindia.com)

**PROMOTERS OF OUR COMPANY**

**YOUSUF UDDIN, MOHD FASI UDDIN and MOHD ZAKI UDDIN**

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 32,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF EPW INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ (●) LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ (●) LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ (●) LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE (●) % AND (●) % RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE PRICE AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("BRLM") AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF (●) (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF (●) (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF (●) (A WIDELY CIRCULATED TELUGU DAILY NEWSPAPER, TELUGU BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF TELANGANA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) AT LEAST TWO (2) WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE OPENING DATE IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"), AND SUCH ADVERTISEMENT SHALL BE MADE AVAILABLE TO NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") (THE "STOCK EXCHANGE") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.**

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Issue is being made through the Book Building process in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229(1) of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors wherein (a) one third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs; (b) two third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than ₹10 lakhs; and (c) any unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to Applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors; and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors, who applies for minimum application size in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. For further details please refer to the section titled "**Issue Information**" beginning on page no. 339 of this Draft Red Herring Prospectus.



This public announcement is being made in compliance with Regulation 247 of SEBI (ICDR), Regulations, 2018 and amendments thereof to inform the public that the Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus dated September 05, 2025 with the Stock Exchange.

Pursuant to SEBI ICDR Regulations, the Draft Red Herring Prospectus filed with Exchange shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the websites the BRLM at [www.getfive.in](http://www.getfive.in) and the Stock Exchange where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. NSE at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). Our Company hereby invites the public to give their comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with exchange in respect of disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments sent to exchange, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company or the BRLM on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the exchange, nor does exchange guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" on page 31 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus shall be made after a Prospectus ("Prospectus") has been registered with the RoC. The Equity shares, when offered through the Draft Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of National Stock Exchange Limited.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 182 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 74 of the Draft Red Herring Prospectus.

LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
 <div><b>Getfive Advisors Private Limited</b> (Formerly known as <b>Avanya Advisors Private Limited</b>) <b>Address:</b> 502, Abhishek Avenue, Nehrunagar, Manekbag, Ahmedabad, Gujarat, India, 380015 <b>Website:</b> <a href="http://www.getfive.in">www.getfive.in</a> <b>SEBI Registration:</b> INM000013147</div>	 <div><b>Bigshare Services Private Limited</b> <b>Address:</b> S6-2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra. <b>Website:</b> <a href="https://www.bigshareonline.com">https://www.bigshareonline.com</a> <b>SEBI Registration:</b> INR000001385</div>

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the Draft Red Herring Prospectus

For On behalf of EPW India Limited

Sd/-  
Yousuf Uddin  
Managing Director and Chairman

Place: Secunderabad, Telangana

Date: September 08, 2025

*EPW India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an Initial Public Offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus September 05, 2025 with EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE or NSE EMERGE"). The Draft Red Herring Prospectus shall be available on the website of NSE at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), and the website of the BRLM at [www.getfive.in](http://www.getfive.in). Any potential investor should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with exchange for making any investment decisions and should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Red Herring Prospectus for details of the same.*

*This announcement has been prepared for publication in India and not to be released or distributed in the United States. This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy Equity Shares of our Company in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.*